



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 माघ, 1941 (श०)

संख्या- 58 राँची, बुधवार,

29 जनवरी, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची

संकल्प

21 जनवरी, 2020

संख्या-5/आरोप-1-19/2017-420 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री नितीन शिवम गुप्ता, झा0प्र0से0 (चतुर्थ बैच), के विरुद्ध इनके प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मझिआँव, गढ़वा के पद पर कार्यावधि में मनरेगा के तहत क्रियान्वित तीन योजनाओं में प्राक्कलित राशि के विरुद्ध अधिक राशि का भुगतान करने, मनरेगा श्रमिकों का डाकघर में अवस्थित खाता को बंद करते हुए बैंक में खाता खुलवाने में शिथिलता, मझिआँव प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत सोनपुरवा में मनरेगा के तहत तीन फर्जी योजनाओं में फर्जी तरीके से राशि की निकासी किया जाना एवं अपूर्ण इंदिरा आवास योजना का कार्य पूर्ण कराने में शिथिलता एवं उदासीनता बरतने संबंधी आरोप, जैसा कि ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-630, दिनांक 02.03.2017 द्वारा प्राप्त संलग्न प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री गुप्ता के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री गुप्ता को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित

बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री गुप्ता द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री गौरी शंकर मिश्र, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्री गुप्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निदेशक, लेखा, प्रशासन एवं स्व-नियोजन, गढ़वा को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	NITIN SHIVAM GUPTA 111003181689	श्री नितीन शिवम गुप्ता, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मझिआँव, गढ़वा, के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
